

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में आज दिनांक:- 18.07.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना डिडौली पुलिस द्वारा अभियुक्त कामिल पुत्र वाहिद निवासी धनुपुरा थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा घर मे घुसकर मारपीट, गाली गलौच, गम्भीर चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त आफाक पुत्र शकूर निवासी पठियापुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को मय 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रईस पुत्र रशीद निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा व थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्ययालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अमरपाल पुत्र महावीर निवासी मौ0 चौहानपुरी थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्ययालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
- थाना सैदनगली पुलिस द्वारा युवक का अपहरण करे रंगदारी की मांग करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र दाताराम निवासी ग्राम सोंधन थाना कैलादेवी जनपद सम्भल को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई । उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में ही थाना सैदनगली पुलिस द्वारा महिला सहित 06 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं ।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त तोताराम पुत्र इमरत सिंह निवासी ग्राम खरमरानी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर माननीय न्ययालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया । जिसमें थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना रहरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया ।